

Friday, May 28, 2021

Ref: CIFL/BSE/2021-22/16

To, The Manager-Listing BSE Limited, 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001

Sub: Advertisement of Financial Results

Dear Sir / Madam,

We wish to submit the copies of advertisement published in Jansatta (Hindi) on May 28, 2021 and Financial Express (English) on May 28, 2021 (copies enclosed) in compliance with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the above information on record and oblige.

Thanking you, For Capital India Finance Limited

Rachit Malhotra

Company Secretary & Compliance Officer Membership No.: A39894

Place: New Delhi

Encl: As above

Corporate office : A-1402, One Bkc, 14th Floor, G - Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai, Maharashtra- 400051 Registered Office: 2nd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi - 110001

P:+91 22 4503 6000 P:+91 11 4954 6000
E:info@capitalindia.com W: www.capitalindia.com
CIN No: L74899DL1994PLC128577
(Capital India Finance Ltd - Formerly known as Bhilwara Tex-Fin Ltd)

मुंबई, 27 मई (भाषा)।

वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख और मासिक वायदा व विकल्प अनुबंधों के निपटान के बीच गुरुवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सूचकांक 98 अंक ऊंचा रहा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ रेकॉर्ड उच्चस्तर पर पहुंच गया। कारोबारियों ने कहा कि रुपए की मजबूती व कोविड-19 संक्रमण के मामले घटने से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है।

बीएसई का 30 शेयरों वाला सुचकांक कारोबार की समाप्ति पर 97.70 अंक यानी 0.19 फीसद की बढ़त के साथ 51,115.22 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36.40 अंक यानी

0.24 फीसद की बढत के साथ 15,337.85 अंक के नए रेकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले इस साल 15 फरवरी को निफ्टी 15,314.70 अंक के रेकॉर्ड स्तर पर बंद हआ था।

सूचकांक में शामिल कंपनियों में स्टेट बैंक का शेयर सबसे अधिक 2.84 फीसद चढ़ गया। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले इंडिया और पावरग्रिड के शेयर भी लाभ में रहे। वहीं दुसरी ओर एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मारुति के शेयरों में गिरावट रही।

रिलायंस सिक्योरिटीज के रणनीति प्रमुख विनोद मोदी ने कहा कि वायदा एवं विकल्प निपटान के बीच उतार-चढाव भरे कारोबार में घरेलू शेयर बाजारों ने जुझारू क्षमता दिखाई और कारोबार सीमित दायरे में रहा। आइटी शेयर लगातार दूसरे दिन मांग में रहे। मोदी ने कहा कि शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी कछ काउंटर को समर्थन मिला।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि कोविड-19 के मामले घटने से राज्यों के स्तर पर अंकुशों में ढील की उम्मीद में शुरुआती कारोबार में बाजार ने रफ्तार पकड़ी। हालांकि, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में शेयर बाजारों में तेजी का बुलबुला बनने के जोखिम की चेतावनी से बाजार में सतर्कता बरती जाने लगी। रिजर्व बैंक ने गरुवार को जारी अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि निजी खपत और निवेश में

टिकाऊ पुनरोत्थान होना चाहिए।

सोने में 319 व चांदी में 1,287 रुपए की गिरावट

नई दिल्ली, 27 मई (भाषा)।

रुपए के मूल्य में सुधार के बीच राष्ट्रीय राजधानी सर्राफा बाजार में बुधवार रह गई, जो पिछले दिन 71,924 रुपए प्रति को सोने की कीमत 319 रुपए की हानि के साथ 48,223 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। यह जानकारी एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने दी है।

इससे पहले के कारोबारी सत्र में सोना

48,542 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 1,287 रुपए की गिरावट के साथ 70,637 रुपए प्रति किग्रा किग्रा रही थी।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार, रुपए के मूल्य में सुधार होने के बीच दिल्ली में 24 कैरेट सोने की हाजिर कीमत में 319 रुपए की गिरावट आई।

पेट्रोनेल और आइजीएल में हिस्सेदारी बेचने का कोई इरादा नहीं : बीपीसीएल

नई दिल्ली, 27 मई (भाषा)।

निजीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने गुरुवार को स्पष्ट करते हुए कहा कि उसका पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आइजीएल) में अपनी हिस्सेदारी बेचने का कोई इरादा नहीं है। इससे पहले कहा जा रहा था कि इन दोनों गैस कंपनियों में

अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने से बीपीसीएल के नए मालिक को खुली पेशकश लाने की जरूरत नहीं रहेगी।

बीपीसीएल के पास भारत की सबसे बड़ी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयातक पेट्रोनेट में 12.5 फीसद और गैस विपणन कंपनी आईजीएल में 22.5 फीसद हिस्सेदारी है। बीपीसीएल दोनों सूचीबद्ध कंपनियों की प्रवर्तक है और उनके निदेशक मंडल में स्थान रखती है।



भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: शिपिंग हाउस, 245, मैडम कामा रोड, मुंबई 400 021 • वेबसाइट: www.shipindia.com ट्विटर: @shippingcorp • CIN: L63030MH1950GOI008033

71वीं वार्षिक साधारण सभा (AGM)

शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एमसीए परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13.01.2021 के मद्देनजर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("VC") / अन्य ऑडियो - विजुअल माध्यम ("OAVM") के माध्यम से अपनी 71 वीं वार्षिक साधारण सभा (AGM) आयोजित करने की योजना बना रहा है। SEBI ने अपने परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/ 2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021 के द्वारा शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने से छुट प्रदान की है। उक्त परिपत्र और इस संबंध में अन्य सभी परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के साथ 71वीं AGM की सुचना केवल इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके पास कट-आँफ तिथि पर कंपनी के शेयर हैं और जिनके ईमेल एडेस पंजीकृत हैं। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने आगामी एजीएम में सदस्यों के विचारार्थ कंपनी के फ्री रिजर्व से प्रत्येक 10/- रुपये के इक्विटी शेयर पर प्रति 0.25/- रुपये के लाभांश की सिफारिश की है।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर, ईमेल एडेस, बैंक खाते का विवरण, केवाईसी दस्तावेजों को कंपनी के अपने डिपॉजिटरी , आरटीए यानी बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपडेट करें। शेयरधारक टीडीएस से छट प्राप्त करने के लिए कंपनी के आरटीए को विधिवत भरा हुआ 15G/15H/10F भेज सकते हैं। उपरोक्त विवरणों को अपडेट करने के लिए आप हमारे आरटीए से Tel: 022-6263 8200 या investor@bigshareonline.com पर संपर्क कर सकते हैं।

> निदेशक मंडल के आदेश से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए

स्थान: मुंबई

श्री दीपांकर हालदार कार्यकारी निदेशक (विधिक कार्य) और कंपनी सचिव दिनांक: 28.05.2021

कार्गो मंजिल तक पहुँचाए. जीवन को राह दिखाए

ट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी

नई दिल्ली, 27 मई (भाषा)

पेट्रोल की कीमत गुरुवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर गई, जबिक मुंबई में इसकी कीमत 99.94 रुपए प्रति लीटर हो गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा जारी मूल्य अधिसूचना के मुताबिक गुरुवार को पेट्रोल 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल 29 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। यह इस महीने में 14वीं बढ़ोतरी है, जिसके चलते देश भर में पेटोल-डीजल की कीमतें रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। पेट्रोल की कीमत पहले ही और महाराष्ट्र का स्थान है। दिल्ली में पेट्रोल राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई शहरों में की कीमत 93.84 रुपए प्रति लीटर और डीजल

और गुरुवार को महाराष्ट्र भी इस सूची में शामिल हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे में अब पेट्रोल 100.06 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.99 रुपए प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 99.94 रुपए प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत बढ़कर 91.87 रुपए हो गई।

वैट और माल ढुलाई शुल्क जैसे स्थानीय करों के आधार पर विभिन्न राज्यों में ईंधन की कीमतें अलग-अलग होती हैं। देश में पेट्रोल पर सबसे अधिक मूल्य वर्धित कर (वैट) राजस्थान में लगता है, जिसके बाद मध्य प्रदेश 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी थी की कीमत 84.61 रुपए प्रति लीटर हो गई।

दिल्ली के व्यापारी एक जून से अंकुशों के साथ बाजार खोलने के पक्ष में

नई दिल्ली, 27 मई (भाषा)।

एक नए सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के करीब 80 फीसद व्यवसायी चाहते हैं कि दिल्ली सरकार एक जून के बाद पूर्णबंदी हटा दे और कडी शर्तों के साथ बाजारों को खुलने की मंजूरी दे।

दिल्ली के व्यवसायियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआइ) द्वारा कराए गए इस सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले लोगों में होटल व रेस्तरां सहित विभिन्न उद्योगों के 560

संगठन शामिल थे। सर्वेक्षण में सौंदर्य और सेहत से जुड़े व्यवसायों के संघों ने भी हिस्सा लिया। सर्वेक्षण के अनुसार व्यवसायी चाहते हैं कि दिल्ली सरकार कड़ी शर्तों के साथ बाजारों और कारखानों को खुलने की मंजूरी दे। दिल्ली सरकार ने 31 मई तक के लिए शहर में पूर्णबंदी बढ़ा दिया है।

सीटीआइ के कोषाध्यक्ष सुधीर जैन ने कहा कि इन 560 संगठनों में से करीब 450 ने कहा कि समय आ गया है कि एक जुन से बाजार व कारखाने खोल दिए जाएं।

CAPITAL INDIA

कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड कॉपोरेट पहचान संख्या (सी आई एन): L74899DL1994PLC128577 पंजीकृत कार्यालयः द्वितीय तल, डी एल एफ सैंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वित्तय वर्ष के लिए अंकेक्षित कंसोलिडेटेड और स्टैन्डलोन के वित्तीय परिणाम

फोन नं- 011-49546000 | वेबसाइटः www.capitalindia.com | ईमेल आईडी: secretarial@capitalindia.com

_	50 Sec. 75		कंसोलिडेटेड		स्टैंडलोन			
क्र. सं	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	समाप्त	तिमाही	समाप्त वर्ष	
	10000000	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	
1.	कुल आय	26,201.53	6,396.71	57,950.65	17,728.72	2,647.12	35,459.64	
2.	शुद्ध लाभ/(हानि) अवधि के लिए (कर से पूर्व, अपवादात्मक और/असाधारण वस्तुएं)	(370.15)	(45.00)	1,475.44	233.59	497.81	2,925.93	
3.	शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पूर्व अवधि के लिए अपवादात्मक और/असाधारण वस्तुओं के बाद)	(370.15)	(45.00)	1,475.44	233.59	497.81	2,925.93	
4.	शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पश्चात अवधि के लिए अपवादात्मक और/असाधारण वस्तुओं के बादे)	(563.55)	(169.54)	608.49	34.04	358.64	2,045.59	
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि (कर के बाद) के लिए लाभ (हानि)) और अन्य व्यापक आय (बाद में)	(536.15)	(157.32)	635.89	54.06	365.72	2,065.60	
6.	इक्रिटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य 10 रू. प्रति शेयर)	7,773.43	7,773.43	7,773.43	7,773.43	7,773.43	7,773.43	
7.	प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य 10 रू- प्रति) (जारी व अवरूद्ध परिचालानों हेतु) 1- बेसीकः 2- डायल्यूटिडः	(0.57) (0.57)	(0.05) (0.05)	1.24 1.22	0.04	0.46 0.46	2.63 2.60	

1. उपरोक्त में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत स्वरूप का एक उद्धरण है। सेबी के नियमन 33 और 52 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज भारतीय प्रतिभृति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध प्रतिज्ञा पत्र एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा स्वरूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.capitalindia.com पर भी उपलब्ध है।

उपरोक्त वित्तीय परिणाम की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई और निदेशक मंडल की 26 मई, 2021 को आयोजित बैठक में अनुमोदित की गई लेखापरीक्षकों ने वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है जो सेबी के विनियमन 33 और 52 (सचीबद्ध प्रतिज्ञा पत्र एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के अतंर्गत

बोर्ड की आज्ञानुसार कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड

केशव पोरवल प्रबंध निदेशक डीआईएनः 06706341

KALYAN JEWELLERS INDIA LIMITED

Registered Office: TC-32/204/2, Sitaram Mill Road, Punkunnam, Thrissur, Kerala - 680 002 Tel: +91 487 24 37 333 | E-mail: compliance@kalyanjewellers.net | Website: www.kalyanjewellers.net CIN: U36911KL2009PLC024641

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26, मई 2021



EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2021

₹ in Millions

			Stand	alone		Consolidated			
	Particulars			ear ended	ed For the quarter ended		For the year ended		
	Particulars					31 March 2021 31 March 2020 (Refer Note 3) (Refer Note 3)		31 March 2021 (Audited)	31 March 2020 (Audited)
1	Total income from operations	26,262.22	16,685.02	73,783.77	79,441.22	30,688.76	21,810.42	86,186.74	1 ,01,810.16
2	Net profit/ (loss) for the period before tax before exceptional items	902.37	768.95	1,874.85	2,353.26	984.73	670.31	393.57	2,208.87
3	Net profit/ (loss) for the period before tax after exceptional items	902.37	768.95	1,874.85	2,353.26	984.73	670.31	393.57	2,208.87
4	Net profit/ (loss) for the period after tax after exceptional items	665.00	574.54	1,382.32	1,563.51	738.75	479.53	(60.73)	1,422.75
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit/ (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	461.94	572.06	1,165.42	1,586.76	139.69	477.05	(673.63)	1,446.00
6	Equity share capital (Face value of ₹10 each)	8918	8	10,300.53	8,392.42	(2)	2	10,300.53	8,392.42
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of the year	1000	*	19,953.95	13,181.28	3*1		17,959.77	13,218.68
8	Earnings per share (of ₹10 each) (in ₹) - Basic (not annualised)	0.78	0.68	1.63	1.86	0.87	0.57	(0.07)	1.70
9	Earnings per share (of ₹10 each) (in ₹) - Diluted (not annualised)	0.69	0.60	1.44	1.63	0.77	0.50	(0.07)	1.49

- 1 The above is an extract of the detailed format of the financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are
- available on the BSE Limited website URL:www.bseindia.com/corporates), the National Stock Exchange of India Limited website (URL: www.nseindia.com/corporates) and on the Company's website.
- The figures of the corresponding previous period/ year have been regrouped/ reclassified, wherever necessary to conform to the current period's presentation.
- The standalone figures for the guarter ended 31 March 2021 and 31 March 2020 are the balancing figures between audited standalone figures in respect of the full financial years and audited year to date figures upto third quarter of the respective

financial years. The standalone figures for the quarter ended 31 March 2021 are subjected to limited review.

Continue... The Public Shareholders who tender their Equity Shares in this Offer shall ensure that the Equity Shares are fully paid up and are free from all liens, charges and encumbrances. The Acquirer shall acquire the Equity Shares that are validly tendered and accepted in this Offer, together with all rights attached thereto, including the rights to dividends, bonuses

and rights offers declared thereof in accordance with the applicable law and the terms set out in the PA, this DPS and the

- Letter of Offer. The Public Shareholders may also download the Letter of Offer from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer (detailed at Part IX (Other Information) of this DPS) on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares of the Target Company and their folio number, DP
- identity-client identity, current address and contact details. In the event that the number of Equity Shares validly tendered by the Public Shareholders under this Offer is more than the number of Equity Shares agreed to be acquired in this Offer, the Acquirer shall accept those Equity Shares validly tendered by such Public Shareholders on a proportionate basis in consultation with the Manager to the Offer.
- The Open Offer will be implemented by the Acquirer through stock exchange mechanism made available by the Stock Exchanges in the form of separate window ("Acquisition Window") as provided under the SEBI (SAST) Regulations and SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 issued by SEBI and as amended vide SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016.
- BSE shall be the designated stock exchange ("Designated Stock Exchange") for the purpose of tendering Equity Shares in the Open Offer.
- The Acquirer has appointed LKP Securities Limited ("Buying Broker") as its broker for the Open Offer through whom the purchases and settlement of the Offer Shares tendered in the Open Offer shall be made. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Name of the Contact Person	Ms. Sunita Ambavkar
Address	203, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai-400021
CIN	L67120MH1994PLC080039
Tel No	022-66351200
Email id	ho_compliance@lkpsec.com,sunita@lkpsec.com
Investor Grievance Email id	grievances@lkpsec.com
Website	www.lkpsec.com
SEBI Registration No.	INZ000216033

- All the Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Open Offer would have to intimate their respective stock brokers ("Selling Broker") within the normal trading hours of the secondary market, during the
- A separate Acquisition Window will be provided by BSE to facilitate the placing of orders. Before placing the bid, the concerned Public Shareholder/Selling Broker would be required to transfer the tendered Equity Shares to the special account of Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation"), by using the settlement number and the procedure prescribed by the Clearing Corporation.
- Shareholders who wish to bid /offer their physical shares in the Offer are requested to send their original documents as mentioned in the Letter of Offer to the Registrar to the Offer so as to reach them within 2 days from Offer Closing Date. It is advisable to first email scanned copies of the original documents mentioned in the Letter of Offer to the Registrar to the Offer and then send physical copies to the address of the Registrar to the Offer as provided in the LOF. In the event the Selling Broker of a shareholder is not registered with BSE then that shareholder can approach the
- Buying Broker and tender the shares through the Buying Broker, after submitting the details as may be required by the Buying Broker in compliance with the SEBI regulations. The cumulative quantity tendered shall be made available online to the market throughout the trading session at
- specific intervals by the Stock Exchanges during the tendering period on the basis of shares transferred to the special account of the Clearing Corporation. 14. The detailed procedure for tendering the Offer Shares in this Open Offer will be available in the Letter of Offer, which
- shall also be made available on the website of SEBI www.sebi.gov.in. Equity Shares should not be submitted/tendered to the Manager, the Acquirer, the PACs or the Target Company. 16. The LOF specifying the detailed terms and conditions of this Offer along with the form of acceptance-cumacknowledgement ("Form of Acceptance") will be mailed to all the Public shareholders whose name appear in the
- register of members of the Target Company at the close on the Identified date June 29, 2021. 17. THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN THE OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER IX. OTHER INFORMATION
- 1. The Acquirer, Selling Shareholders and the Target Company have not been prohibited by SEBI from dealing in securities under directions issued pursuant to Section 11B or under any other regulations made under SEBI Act. The Acquirer and the PAC and their respective directors accept full responsibility for the information contained in this DPS & PA (except for the information with respect to the Target Company which has been compiled from the information published or provided by the Target Company, as the case may be, or information publicly available sources and which

information has not been independently verified by the Acquirer, the PAC or the Manager, or information provided by the Seller), and shall be jointly and severally responsible for the fulfillment of the obligations of the Acquirer and the PAC as laid down in the SEBI (SAST) Regulations and subsequent amendments made thereto.

स्थान : नई दिल्ली

दिनांकः 27.05.2021

Pursuant to regulation 12(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer has appointed. Fedex Securities Private Limited as Managerto the Open Offer


Name of the Registrar to the Offer	Link Intime India Private Limited
Address	C 101, 247 Park, L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400083
Name of the Contact Person	Mr. Sumeet Deshpande
Tel No	022-49186200
Email ID	whiteorgainc.openoffer@linkintime.co.in
Investor Grievance Id	whiteorgainc.openoffer@linkintime.co.in

SEBI Registration No. INR000004058 In this DPS, any discrepancy in any table between the total and sums of the amount listed is due to rounding off and or

www.linkintime.co.in

The DPS and the PA is also available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer and the PAC



(Formerly known as Fedex Securities Limited) B7, 3rd Floor, Jay Chambers, Dayaldas Road, Vile Parle (E), Mumbai 400057, Maharashtra, India. Tel. No.: +91-81049 85249 | Email: mb@fedsec.in Contact Person: Rinkesh Saraiya; SEBI Registration Number: INM 000010163

On behalf of Suumaya Retail Limited (Acquirer) On behalf of Suumaya Industries Limited (PAC) Name: Mr. Seial Doshi Name: Mr. Ushik Gala

Place : Mumbai Date: May 27, 2021.

Website

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. VASTE इकाई 203 एवं 204, द्वितीय तल, 'ए' विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुम्बई 400015. महाराष्ट्र, सीआईएन : U65922MH2005PLC272501 2002 के प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना

तथा साख सुविधाओं के ब्याज के भुगतान के पुनर्भुगतान में चुक की और कथित सुविधाएँ गैर-निष्पादन आस्तियों में परिवर्तित हो गयीं। ये सूचनाएँ उन्हें वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धार 13(2) तथा प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत उनके अन्तिम ज्ञात पर्ते पर भेजी गयी र्थ किन्त उन्हें अन्सर्व्ड वापस कर दिया गया अतः उन्हें एतद्वारा इस सार्वजनिक सचना के माध्यम से सचित किय धारा 13(2) के अंतर्ग कर्जदार का नाम माँग सचना की तिथि बंधक सम्पत्ति का विवरण

जैसा कि, वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अपने मुख्य कार्यालय मुम्बई के माध्यम से निम्नलिखि

कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं को सचना जारी की जिन्होंने वीएचएफसीएल से ग्रहण किए गए मुलधन

	तथा राशि	
	ऋण खाता सं.	
श्री/श्रीमती सुरेन्द्र कुमार (आवेदक)	111	खसरा नं. 401, ग्राम होशिया
आवास का पता : ग्राम : होशियारपुर, सेक्टर-		परगना दादरी, गाजियाबाद,
51, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-	रु. 5,169,499/- (रुपए	प्रदेश, मार्केट, नोएडा, उत्तर प्र
201301	इक्यावन लाख उनहत्तर	
श्री/श्रीमती ज्ञानवती (सह आवेदक)	हजार चार सौ निन्यानबे	
आवास का पता : ग्राम : होशियारपुर, सेक्टर-	मात्र) और एनपीए की तिथि	
51, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-	से उपर्युक्त राशि पर	दक्षिण : अन्य सम्पत्ति
201301	अनुबन्ध दर पर अप्रयुक्त	पूर्व : अन्य सम्पत्ति
श्री/श्रीमती जगपाल सिंह (सह-आवेदक)	ब्याज, आकस्मिक व्ययों,	पश्चिम : सड़क
आवास का पता : ग्राम : होशियारपुर, सेक्टर-51,	लागत, प्रभारों आदि सहित।	
गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301		
श्री/श्रीमती राजेन्द्र यादव (जमानती)		
आवास का पता : ग्राम : होशियारपुर, सेक्टर-		
51, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-		
201301		
	LP0000000017762	0
सूचना की वैकल्पिक विधि के लिए व	कदम उठाये जा रहे हैं।	उपर्युक्त कर्जदारों, सह–कर्ज
तथा/अथवा उनके जमानतियों (जहाँ प्र	योज्य हो) को इस सूचना	के प्रकाशन की तिथि से 60 वि
के भीतर बकाया राशि का भुगतान व	_{करने} का परामर्श दिया ज	ाता है जिसमें असफल रहने

प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के प्रावधानों के अनसार इस सचना की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति पर भावी कदम उठाये जायेंगे कपया ज्ञात हो कि कथित सुचना कर्जदारों/जमानतियों/बन्धककर्ताओं को सुचित करते हुए धार 13(13) के तहत सुचना भी है कि कथित बन्धक सम्पत्ति की बिक्री/पट्टा/हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। तिथि : 28.05.2021

स्थान : नोएडा

NUCLEUS

न्युक्लियस सॉफ्टवेयर एक्स्पोर्टस लिमिटेड सीआईएन: L74899DL1989PLC034594 पंजीकृत कार्यालयः 33-35 त्यागराज मार्केट, नई दिल्ली-110003

टेलीफोन नं: +91-120-4031400; फैक्स : +91-120-4031672 SOFTWARE ई-मेल : investorrelations@nucleussoftware.com वेबसाइट : www.nucleussoftware.com

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सूचना

कम्पनी के समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईइपीएफ) में अंतरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 124 के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016 ("नियम"), यथा संशोधित, के अनुपालन में एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के समता अंशों, जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों अथवा उस से अधिक अवधि से गैर—दावाकृत अथवा अदत्त हैं, को कम्पनी द्वारा आईइपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किया जाना वांछित है।

कम्पनी उन सभी सम्बद्ध अंशधारकों, जिनके अंश आईइपीएफ प्राधिकरण को अंतरित करने हेत् संभाव्य हैं, को उन्हें अपने गैर–दावाकृत लाभांश का दावा करने हेत् व्यक्तिगत सूचना (इलेक्ट्रॉनिक अथवा भौतिक) उनके पंजीकृत ई–मेल आईडी / अन्तिम ज्ञात पते पर प्रेषित कर चुकी / प्रचलित महामारी की स्थिति के कारण जब व्यावहारिक होगा, प्रेषित करेगी। कम्पनी ने सम्बद्ध अंशघारकों, जिनके अंश आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित करने हेतु संभाव्य हैं, का विवरण अपनी वेबसाइट www.nucleussoftware.com पर अपलोड किया है। अंशघारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे उक्त वेबसाइट संदर्भित कर गैर–दावाकृत लाभांशों तथा आईइपीएफ प्राधिकरण को अंतरित करने हेतु संभाव्य अंशों का विवरण को सत्यापित करें।

वे सम्बद्ध अंशधारक (ओं) जो भौतिक रूप में अंश का स्वामित्व रखते हैं और जिनके अंश आईइपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने हेत् संभाव्य हैं, कृपया ध्यान दें कि अंशों को आईइपीएफ प्राधिकरण को अंतरित करने पर, मूल अंश प्रमाणपत्र(त्रों), जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं, स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा और गैर-परक्राम्य समझा जाएगा। डीमैटेरियलाईजड अंशों के मामले में, अंतरित होने हेत् संभाव्य अंशों की सीमा तक, अंशघारकों के खाते से डेबिट किया जाएगा। यदि सम्बद्ध अंशघारक 07 जुलाई, 2021 तक अपने गैर–दावाकृत लाभांश का दावा नहीं करते हैं तो कम्पनी, उक्त नियमों के अनुपालन में, अंशधारकों को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के, अंशों को आईइपीएफ प्राधिकरण को अंतरित करेगी तथा इस प्रकार अंतरित अंशों के सम्बन्ध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दायित्व नहीं होगा। अंशधारक ध्यान दें कि आईइपीएफ प्राधिकरण को अंशों के अंतरण पर, ऐसे अंशों पर मिलने वाले सभी अर्जित लाभों सहित, यदि कोई हो, आईइपीएफ प्राधिकरण को पृथक

से ही दावा किया जा सकता है, जिसका विवरण आईइपीएफ की वेबसाइट अर्थात् www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है। उपरोक्त मामले के संबंध में किसी भी प्रश्न हेत्, अंशधारक केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रान्सफर एजेंट, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 व 32. फाइनैनसीअल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500032 टेलीफोन +91-40-6716 2222, ईमेलः suresh.d@kfintech.com अथवा amit.tomar@nucleussoftware.com से संपर्क कर सकते हैं।

तौर फॉर्म आईइपीएफ-5 में आवेदन कर के, जैसा की नियमों में निर्धारित है, आईइपीएफ

कृते न्युविलयस सॉफ्टवेयर एक्स्पोर्टस लिमिटेड

हस्ता./-पूनम भसीन कम्पनी सचिव

www.readwhere.com

FINANCIAL EXPRESS

Edelweiss Finance & Investments Limited

Corporate Identity Number: U67120MH1994PLC286057 Regd. Off: Edelweiss House, Off. C.S.T. Road, Kalina, Mumbai - 400 098 Tel: +91-22-4009 4400 | Fax: +91-22-4086 3610 | Website: www.edelweissfin.com

Financial Results for the half year and year ended March 31, 2021

(₹ in Crores, except per share data)

		Half Year Ended Year Ended					
	Particulars	March 31, 2021 (Audited)	March 31, 2020 (Audited)	March 31, 2021 (Audited)	March 31, 2020 (Audited		
1	Total income from operations	134.59	30.86	200.59	148.53		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	17.65	0.43	18.55	26.36		
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	17.65	0.43	18.55	26.36		
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13.95	1.33	14.35	18.42		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	14.22	1.00	14.62	18.10		
6	Paid-up equity share capital (Face Value of ₹ 10/- Per Share)	11.46	8.34	11.46	8.34		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)	640.03	453.53	640.03	453.53		
8	Net worth ¹	649.15	461.08	649.15	461.08		
9	Paid-up Debt Capital / Outstanding Debt	1,373.76	365.16	1,373.76	365.16		
10	Outstanding Redeemable Preference Shares (Face Value of ₹ 10/- Per Share)	16.00	34.06	16.00	34.06		
11	Debt Equity Ratio ²	2.12	0.79	2.12	0.79		
12	Earnings Per Share (₹) (Face Value of ₹ 10/- each)						
	- Basic (Refer note 8)	16.46	3.84	17.07	53.44		
	- Diluted (Refer note 8)	16.46	3.84	17.07	53.44		
13	Capital Redemption Reserve	22.63	11.66	22.63	11.66		
14	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA	N/		
15	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ³	NA	NA	NA	N.		
16	Interest Service Coverage Ratio (ISCR) 4	NA	NA	NA	N		

²Debt-equity Ratio = Total debt (Debt securities + Borrowings other than debt securities + subordinated liabilities) / Net worth ³DSCR = Profit before interest and tax / (Interest expense + Principal repayment in next six months) ⁴ISCR = Profit before interest and tax / Interest expense

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of half year financial results filed with the Stock Exchanges in accordance with Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations, 2015') and the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended and the relevant provision of the Companies Act, 2013, as applicable. The full format of the half yearly financial results are available on the website of the Stock exchange (www.bseindia.com) and the Company's website (https://edelweissfin.com).
- The above financial results of the Company are reviewed and recommended by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors at its meeting held on May 26, 2021.
- The results for the half year ended March 31, 2021 and half year ended March 31, 2020 are the derived figures between audited figures in respect of full financial year ended March 31, 2021 and March 31, 2020 and the published year to date figures up to the half year ended September 30, 2020 and September 30, 2019 respectively, which was subject to limited review by statutory auditors of the Company.
- The outbreak of COVID-19 virus and more importantly the current wave of infections and resultant lockdowns continue to cause significant disruptions. While the lockdown introduced by the government at the beginning of the year were lifted in a phased manner and was followed by a period of increased economic activity, with the onset of a very severe second wave of infections, state governments have reintroduced lockdowns and have imposed restrictions. The Company's performance continues to be dependent on future developments, which are uncertain, including, among other things, including the current wave that has significantly increased the number of cases in India and any action to contain its spread or mitigate its impact. In accordance with the regulatory package announced by the Reserve Bank of India (RBI) on March 27, 2020, April 17, 2020 and May 22, 2020, the Company has granted a moratorium for the payment of all instalments falling due between March 1, 2020 and August 31, 2020 to all eligible borrowers that have opted to The Company has assessed the impact of the COVID-19 pandemic on its liquidity and ability to repay its obligations as

and when they are due. Based on the foregoing and necessary stress tests considering various scenarios, management believes that the Company will be able to pay its obligations as and when these become due in the foreseeable future. In assessing the recoverability of loans and receivables, the Company has considered internal and external sources of information, including credit reports, economic forecasts and industry reports up to the date of approval of these financial statements. Since the situation continue to evolve, its effect on the operations of the Company may be different from that estimated as at the date of approval of these financial statements. The Company will continue to closely monitor material changes in markets and future economic conditions.

The quantitative disclosures as required by RBI circular dated April 17, 2020 for the year ended March 31, 2021 are given

Particulars	₹in Crores
"Respective amounts in SMA/overdue categories, where the moratorium/deferment was extended, in terms of paragraph 2 and 3 of the circular (as of February 29, 2020)"	6.73
"Respective amount where asset classification benefit is extended (as of February 29, 2020)"	2.54
Provisions made in terms of para 5 of the circular as of March 31, 2021	0.03
Provisions adjusted against slippages in terms of paragraph 6 of the circular	
Residual provisions as of March 31, 2021 in terms of paragraph 6 of the circular	0.03

- In terms of the requirements of RBI circular number RBI/2021-22/17 dated April 07, 2021, all lending institutions shall refund / adjust 'interest on interest' to all borrowers including those who have availed working capital facilities during the moratorium period, irrespective of whether moratorium had been fully or partially availed or not availed. Pursuant to these instructions, the Indian Banks Association (IBA) in consultation with other industry participants / bodies published the methodology for calculation of the amount of such 'interest on interest/compound interest/penal interest'. Accordingly the Company has made provision of INR 0.08 crores as at March 31, 2021 for refund/adjustment of penal interest.
- The Indian Parliament has approved the Code on Social Security, 2020 which subsumes the Provident Fund and the Gratuity Act and rules there under. The Ministry of Labour and Employment has also released draft rules thereunder on 13 November 2020, and has invited suggestions from stakeholders which are under active consideration by the Ministry. The Company will evaluate the rules, assess the impact, if any, and account for the same once the rules are notified and
- Earnings per share for the half year ended March 31, 2021 and March 31, 2020 are not annualized.
- Previous period/year figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period's/years's presentation

On behalf of the Board of Directors

Venkatchalam Ramaswamy Non-Executive Director DIN: 00008509

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



♦ The Indian EXPRESS

FINE ORGANIC INDUSTRIES LIMITED

Reg off: Fine House, Anandji Street, Off M G Road, Ghatkopar (East), Mumbai - 400 077. CIN: L24119MH2002PLC136003 Email: info@fineorganics.com; Web: www.fineorganics.com, Tel.: +91 (022) 21025000, Fax: +91 (022) 21028899

Extract of Standalone and Consolidated results for the quarter and year ended 31st March 2021

			Standalone		Consolidated			
Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31" March 2021	Year ended 31 st March 2021	Quarter ended 31" March 2020	Quarter ended 31" March 2021	Year ended 31" March 2021	Quarter ended 31" March 2020	
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	
1	Total Income from Operations	32,169.06	112,129.01	24,243.47	32,288.40	113,321.84	24,727.86	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,836.37	15,623.88	4,578.72	4,130.07	16,214.93	4,670.65	
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,836.37	15,623.88	4,578.72	4,130.07	16,214.93	4,670.65	
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,887.27	11,493.18	3,353.14	3,180.06	12,034.15	3,436.24	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	2,971.28	11,726.08	3,204.83	3,264.07	12,267.05	3,287.93	
6	Paid-up Equity Share Capital (face value ₹ 5 each)	1,533.00	1,533.00	1,533.00	1,533.00	1,533.00	1,533.00	
7	Reserves (excluding Revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		72,350.77			71,612.62		
8	Earnings per equity share (face value of ₹ 5 each) for continuing and discontinued operations				12-			
	1. Basic: (not annualised for the quarter)	9.42	37.49	10.94	10.37	39.25	11.21	
	2. Diluted: (not annualised for the quarter)	9.42	37.49	10.94	10.37	39.25	11,21	

Place : Mumbai

Dated: 27" May 2021

a) The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 27th May 2021.

b) The above is an extract of the detailed format of Statement of Standalone and Consolidated Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 27" May 2021. The full format of the Statement of Standalone and Consolidated Audited Financial Results are available on the Company's website (www.fineorganics.com) and on the websites of National Stock exchange of India Limited (www.nseindia.com), BSE Limited (www.bseindia.com)

c) The Board of Directors has recommended final dividend on equity shares at the rate of ₹ 11 per share (face value ₹ 5 per share) for the year ended 31" March 2021.

For and on behalf of the Board of Directors

FINE ORGANICS

(Mukesh Shah) Managing Director DIN: - 00106799

Adfactors 76

Strides

Strides Pharma Science Limited

CIN: L24230MH1990PLC057062

Registered Office: 201, 'Devavrata', Sector 17, Vashi, Navi Mumbai - 400 703. Tel No.: +91 22 2789 2924; Fax No.: +91 22 2789 2942

Corporate Office: 'Strides House', Bilekahalli, Bannerghatta Road, Bengaluru - 560 076. Tel No.: +91 80 6784 0000 / 6784 0290; Fax No.: +91 80 6784 0800 Website: www.strides.com; Email ID: investors@strides.com

Extract of the Consolidated Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2021

Rs. in Million

	Consolidated							
Particulars	3 Months ended March 31, 2021	Preceding 3 Months ended December 31, 2020	Corresponding 3 Months ended in the previous year March 31, 2020	For the Current year ended March 31, 2021	Previous year ended March 31, 2020			
	AUDITED	UNAUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED			
Continuing operations				134000000000000000000000000000000000000	3,000,000,000			
Revenue from operations	9,084.93	8,320.22	6,186.44	33,158.70	27,519.71			
Net Profit from ordinary activities before	SACROMAN.			69653900000				
Exceptional Items and tax (*)	768.19	866.12	(29.78)	3,299.05	2,395.89			
Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax								
from continuing operations	560.65	459.31	(2,178.57)	2,754.39	546.80			
Net Profit/ (Loss) from ordinary activities after tax	30000000000000000000000000000000000000	0.0000 PRAD (0)		DESTRUCTION COSTANS	\$25500.000.000000 \$460.000.00000000			
from continuing operations	445.75	351.57	(2,073.90)	2,437.88	433.57			
Profit/(loss) after tax from discontinued operations	(8.31)		8.24	139.41	(127.61)			
Total comprehensive income for the period	410.21	379.12	(1,943.86)	2,742.84	676.66			
Equity share capital	896.81	896.35	895.65	896.81	895.65			
Other equity	26,869.80	26,420.01	24,378.52	26,869.80	24,378.52			
Earnings per equity share (for total operations)	100	7/8		30	100			
(face value of Rs. 10/- each) - not annualised								
(a) Basic EPS (Rs.)	5.14	4.22	(22.77)	29.96	4.06			
(b) Diluted EPS (Rs.)	5.14	4.22	(22.76)	29.92	4.06			

(*) The Company did not have Extra-ordinary items for the given periods.

Information on Standalone Results : -	2007 IS SOR THE	W		30	Rs. in Million
Particulars	3 Months ended March 31, 2021	Preceding 3 Months ended December 31, 2020	Corresponding 3 Months ended in the previous year March 31, 2020	For the Current year ended March 31, 2021	Previous year ended March 31, 2020
	AUDITED	UNAUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED
Total Revenue from continuing operations	6,569.05	4,373.14	4,772.11	19,465.62	17,850.03
Profit/(loss) before Tax from continuing operations	686.95	273.64	480.13	1,116.35	1,364.45
Profit/(loss) after Tax from continuing operations	480.75	204.89	376.69	782.40	1,202.75
Profit/(loss) before tax from discontinued operations Profit/(loss) after tax from discontinued operations			353025492307	_	-

1) The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites viz., www.nseindia.com & www.bseindia.com and on the Company's website www.strides.com.

For and on behalf of the Board

Bengaluru, May 27, 2021

Dr. R Ananthanarayanan Managing Director and CEO

CAPITAL INDIA

Capital India Finance Limited Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1994PLC128577

Regd. Office: 2nd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi - 110001, Ph. No. 011-49546000 | Website: www.capitalindia.com | Email ID: secretarial@capitalindia.com Statement of Consolidated and Standalone Audited Financial Results for the guarter and year ended March 31, 2021

							Rs. in Lakhs	
			Consolidated	i	Standalone			
SI.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended	
	E	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	
1	Total Income	26,201.53	6,396.71	57,950.65	17,728.72	2,647.12	35,459.64	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary Items)	(370.15)	(45.00)	1,475.44	233.59	497.81	2,925.93	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary Items)	(370.15)	(45.00)	1,475.44	233.59	497.81	2,925.93	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary Items)	(563.55)	(169.54)	608.49	34.04	358.64	2,045.59	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(536.15)	(157.32)	635.89	54.06	365.72	2,065.60	
6	Equity Share Capital (face value of the share : Rs.10 each)	7,773.43	7,773.43	7,773.43	7,773.43	7,773.43	7,773.43	
7	Earning per share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic :	(0.57)	(0.05)	1.24	0.04	0.46	2.63	

2. Diluted : Notes:-

Mumbai, May 26, 2021.

The above is an extract of the detailed format of Yearly Financial Results for the year ended 31st March 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 & 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com and also on Company's website www.capitalindia.com.

(0.05)

(0.57)

The detailed financial results and this extract were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meetings held on May 26, 2021. The auditors have Audited our financials results, as required under Regulation 33 & 52 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

By order of the Board Capital India Finance Limited

0.46

Keshav Porwal Managing Director DIN: 06706341

2.60



Sun Pharmaceutical Industries Limited

Regd. Office: Sun Pharma Advanced Research Centre, Tandalja, Vadodara - 390012 Gujarat, India Corporate Office: Sun House, CTS No. 201 B/1, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400063 Tel: +91 22 4324 4324 CIN: L24230GJ1993PLC019050 Website: www.sunpharma.com

191		1000 - 1000	Y	2 4000000	(₹ in Millio	
		Quarter ended	31.03.2020		ended	
Particulars	31.03.2021	1.03.2021 31.12.2020		31.03.2021	31.03.2020	
10807788880000	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	
Total Income from Operations	85,229.8	88,367.8	81,849.4	334,981.4	328,375.0	
Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	15,758.5	21,630.5	8,380,8	71,055.1	52,702.3	
Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	9,030.4	21,630.5	5,774.4	27,993.7	50,095.9	
Net Profit / (loss) after taxes, share of profit / (loss) of associates and joint venture and non-controlling interests	8,941.5	18,524.8	3,998.4	29,038.2	37,649.3	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	9,311.0	18,137.2	17,414.4	21,263.2	62,927.9	
Equity Share Capital	2,399.3	2,399.3	2,399.3	2,399.3	2,399.3	
Other Equity	N.A.	N.A.	N.A.	462,228.5	450,245.2	
Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (not annualised for quarters) ₹ Basic: ₹ Diluted:	3.7 3.7	7.7 7.7	1.7 1.7	12.1 12.1	15.7 15.7	

1 The above audited consolidated financial results of the Company have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 27, 2021.

2 Additional information on standalone financial results is as follows: (₹ in Million)

Particulars	Quarter ended			Year ended	
	31.03.2021 Audited	31.12.2020 Unaudited	31.03.2020 Audited	31.03.2021 Audited	31.03.2020 Audited
Profit for the period (before Tax)	3,710.7	5,484.0	11,672.2	21,528.7	32,530.0
Net Profit for the period (after tax)	3,273.9	5,555.5	11,558.5	21,397.0	32,111.4
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,338.8	5,688.6	11,347.2	22,030.0	31,303.4

- 3 The above is an extract of the detailed format of audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The full format of the audited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.sunpharma.com.

For and on behalf of the Board Dilip S. Shanghvi Managing Director

financialexp.epa

Place: New Delhi

Date: May 26, 2021



1.22

0.04



Mumbai, May 27, 2021









